



Date: 08th June, 2022

To **BSE Limited**

Phirozeleejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai Maharashtra - 400001

BSE Scrip Code- 526987

To

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai, Maharashtra 400051

Ref: NSE Symbol -URIA

Subject: Publication of Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Ouarter & Financial year ended 31st March, 2022 in Newspaper pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, **2015**

Dear Sir

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the company has published on 08th June, 2022 an extract of statement of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter & financial year ended on 31st March, 2022, in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English Edition)
- 2. Jansatta (Hindi Edition)

The said results have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on 06th June, 2022. Further details will be available on the website of the Company i.e. at www.urjaglobal.in and also on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com.

Kindly take this information into your records.

Thanking You

For URIA GLOBAL LIMITED

NEHA SHUKLA

Company Secretary/Compliance officer

M. No.: 46721

Enclosed: Copy of Newspaper cutting









HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

REGISTERED OFFICE: RADHIKA, 2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD, NAVRANGPURA AHEMDABAD, GUJRAT, PIN CODE: 380009 BRANCH OFFICE: HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, 19, PANCHKUIAN NAGAR, BHARAT NAGAR, PAHARGANJ, NEW DELHI-110001. WHEREAS, THE AUTHORISED OFFICER OF HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED UNDER THE

SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (64 OF 2002) AND IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED UNDER SECTION 13(12) READ WITH RULES 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ISSUED DEMAND NOTICE TO THE BORROWER/S AS DETAILED HEREUNDER, CALLING UPON THE BORROWERS TO REPAY THE AMOUNT MENTIONED IN THE SAID NOTICE WITH ALL COSTS, CHARGES AND EXPENSES TILL ACTUAL DATE OF PAYMENT WITHIN 60 DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF THE SAME. THE SAID BORROWER/CO-BORROWER HAVING FAILED TO REPAY THE AMOUNT, NOTICE IS HEREBY GIVEN TO BORROWER/CO-BORROWER AND THE PUBLIC IN GENERAL THAT THE JNDERSIGNED HAS TAKEN POSSESSION OF THE PROPERTY DESCRIBED HERE BELOW IN EXERISE OF POWERS CONFERRED ON HIM/HER UNDER SECRTION 13(4) SECTION 14 OF THE SAID ACT READ WITH RULE 8 OF THE SAID RULES OF THE SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002 ON THIS 03.06.2022. THE BORROWERS IN PARTICULAR AND PUBLIC IN GENERAL ARE HEREBY CAUTIONED NOT TO DEAL WITH THE PROPERTY AND ANY DEALINGS WITH THE PROPERTY WILL BE SUBJECT TO THE CHARGE OF HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED FOR THE AMOUNT SPECIFIED HEREIN WITH FUTURE INTEREST, COSTS AND CHARGES FROM THE RESPECTIVE DATE. DETAILS OF PROPERTY TAKEN INPOSSESSIONAREHEREINBELOW.

S. 1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR: 2) LOAN ACCOUNT NUMBER: 3) LOAN AMOUNT: 4) DETAILS OF SECURITIES: 5) DATE OF DEMAND NOTICE: 6) CLAIMED AMOUNT IN INR; 7) DATE OF POSSESSION

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: S J MOTORS - 3435/4 GF NICHOLSON ROAD (ASHMIRI GATE DELHI-110006 - Also is at :PROPERTY NO. 3435/4 GF NICHOLSON IASAN BUILDING NICHOLSON NICHOLSON DELHI-110006.PREETI ARORA - 305 HAKIKAT NAGAR GTB NAGAR DELHI-110009.MANOJ ARORA (DECEASED "HROUGH LEGAL HEIR) - PREETI ARORA (LEGAL HEIR)SIA ARORA (LEGAL HEIR) USTHI ARORA (LEGAL HEIR) - REVANT ARORA (LEGAL HEIR) - REYANSH ARORA EGAL HEIR), SHANTI DEVI ÁRORA (DECEASED THROUGH LÉGAL HEIR) - PREET ARORA (LEGAL HEIR)SIA ARORA (LEGAL HEIR) - TUSTHI ARORA (LEGAL HEIR) REVANT ARORA (LEGAL HEIR) - REYANSH ARORA (LEGAL HEIR) Ali At : H.NO: 305 HAKIKAT NAGAR NEAR GTB NAGAR DELHI-110009.Loan Account No. 3966846; Loan Amount: Rs.7800000/- (Rupees Seventy Eight Lakhs Only) Demand Notice: 09.08.2021 Amount Claimed: Rs. 4,589,219.72 (Rupees Forty Five Lakhs Eighty Nine Thousand Two -lundred Nineteen and Paise Seventy Two Only) as of 07-Aug-2021 and future contractual nterest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. Details Of Security: All piece and parcel of property Shop No - 4, Ground Floor Municipal No III/3435, Ground Floor, Hasan Building, Nicholson Road, Kashmiri Gate, Delhi 110006, Property Area 576.99 sq Ft PROPERTY BOUNDARIES: NORTH: Main Road & South, SOUTH: Gali & Part of 3430, EAST: Property No-3430-31 WEST: Property No-3436:7) DATE OF POSSESSION: 03.06.2022

The Borrowers' Attention Is Invited To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Asset.

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT please contact Mr. Arun Yadav 9350538386 or Mr. Vikas Anand: 9711010384, HDB Financial Services Limited, 19, Panchkulan Nagar, Bharat Nagar, Paharganj, New Delhi-110001

SD/- FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED. Place: Delhi Date: 06.06.2022

Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd. Himalaya House UGF, 1S' AXIS BANK FLOOR Kasturba Gandhi Marg Connaught Place New Delhi-110001 Axis Bank Ltd. VIPUL SQUARE SUSHANT LOK PHASE-1 GURGAON-122009 Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301Corporate Office: 'Axis House', Block-B Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025 Registered Office: Frishul', 3rd floor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attention is invited to provisions of sub-section of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. tion of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower / Co-borrower : 1. M/s- I N Mehra Date of Demand Notice : Industries C-22/23 Kh No.61/15, Maresh Park Extn. 2nd Floor, Nagloi Delhi-110041. 2. Mr. Nakul Mehra S/o Mr. Date of Possession: 04-Akhil Mehra & Mr. Akhil Mehra Both Are Resident Of Rio-318, 2nd Floor, Kohat Enclave, Pitampura, North West Delhi-110034 3, Mr. Akhil Mehra 156b Block-gu Near Income Tax Colony, Pitampura North West Delhi-110034. Description Of Property: DDA LIG Flat No.156-B First Floor, Block No.QU, Area of Property 45.00 Sq Meter, Situated In Pitam Pura, Delhi

Name Of Borrower / Co-borrower: 1 Mr. Gholam Ahmad Date of Demand Notice: Reza S/o Mr. Mahammed Raisuddin & Mr. Mahammed Raisuddin S/o Mr. Seikh Mazharboth Are R/o- H No 144 Date of Possession: 04-Housing Board Colony, Saraswati Vihar Chakarpur Gurgaon Haryana 122002. Also At- Tower A-6, Flat No. 306, Avlon Rangoli Bhiwadi, Rajsthan-301019. 2. Mr. Gholam Ahmad Reza M/s GAR Contractors R/o- H No 144 Housing Board Colony, Saraswati Vihar Chakarpur

floor, tower A-6 having built up super area 1000 Sq Ft Approx. situated in Avlon Rangoli, Bhiwadi Rajasthan-

sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

CAUTION NOTICE TO GENERAL PUBLIC

Reference: Loan / Prospect No. 755411, Borrower Name: Elegant Infracon Private Limited. Secured Asset / Property in Dispute: Elegant Splendour to be developed on Plot No.CP-GH-05C, admeasuring 14590 sq. mtrs. situated at Sector - Techzone 4, Greater Noida - 201 308.

That Elegant Infracon Private Limited, and 4 others (i.e., Abhay Sharma, Akash Sharma, Alka Mittal & Tulika Mishra) (hereinafter, referred to as borrower's), has availed a credit facility for project construction from our company. That subsequently, the borrower's have defaulted, in repayment of loan, and consequently the loan account of borrower's were classified as NPA.

Further, for recovery of the aforesaid loan, we were constrained to initiate proceedings under the SARFAESI Act, 2002. That in continuance of same proceedings Hon'ble Rohit Ranjan Agarwal Justice, of he Allahabad High Court, vide order dated 04.10.2021 passed by Hon'ble Court in Writ Petition No. 25410 of 2021; Authorized Officer, IIFL Home Finance Limited Vs Debt Recovery Appellate Tribunal Allahabad hrough its Chairman And 5 Others, a status guo order was granted. Para 4 of the aforesaid order in

judgment dated 04:10:2021 are relevant and are reproduced hereunder: 4. The parties are directed to maintain status quo over the property in dispute as on date. Any person dealing in above mentioned secured asset / property in dispute will be liable for contempt

proceedings in accordance of law. That subsequent action's of any person, despite having knowledge of the subjected order, amount's, to a clear cut contempt of the court's direction. That any one action in regard to aforesaid property will be

completely baseless, illegal, arbitrary and in sheer contempt of the direction's of the Hon'ble Court.

Authorised Officer IIFL Home Finance Ltd.

POSSESSION NOTICE

DCB BANK

Undersigned the Authorized Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co- borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the

The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

Sr.	Loan Account	Borrower /	Date of	Date of
No.		Co-Borrower	Demand Notice	Possession
1	DRBLMEE00422870	Mohd Ali, Mohd Arif, Mohd Kasim And Ms Bismillah	10.12.2019	02.06.2022

Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250001

Amount Demanded: RS.89,68,739.45/- (Rupees Eighty Nine Lakh Sixty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Nine and Paisa Forty Five Only)

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. Date: 08.06.2022 Place: Meerut Authorized Officer

REAL ESTATE PROJECT "AVALON REGAL COURT" OF M/S. GRJ DISTRIBUTORS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS Name of Corporate Debtor M/S. GRJ DISTRIBUTORS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 23.11.1998 Date of incorporation of Corporate Debtor Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered

Registrar of Companies, (Delhi) under Companies Act, 1956/ 2013 U51396DL1998PTC097177 Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor Registered Office: 64. Scindia House, Address of the registered office and

CORRIGENDUM **FORM A** PUBLIC ANNOUNCEMENT Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

principal office (if any) of Corporate Debtor | Connaught Place, New Delhi-110001 Insolvency commencement date in 03.06.2022, being the date of order passed by Hon'ble NCLT (Order received by IRP on 06.06.2022) respect of Corporate Debtor 30.11.2022 Estimated date of closure of insolvency resolution process Name and Registration number of the Gaurav Katiyar

insolvency professional acting as Interim Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409 Resolution Professional D-32, East of Kailash, New Delhi - 110065 Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board Email: cagauravkatiyar@gmail.com D-32, East of Kailash, New Delhi - 110065 Address and e-mail to be used for Email: gri.cirp@gmail.com correspondence with the Interim Resolution Professional Website: www.gauravkatiyar.in Last date for submission of claims 20.06.2022 Allotees under real estate project Classes of creditors, if any, under clause (b)

of sub-section (6A) of section 21, ascertained "Avalon Regal Court"

Names of insolvency professionals 1. Mr. Shyam Arora

by the Interim Resolution Professional

identified to act as authorised Regn No: IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-2018/11703 representative of creditors in a class (three Add.: 96, Aravali Apartment, Alaknanda, names for each class) New Delhi -110019 2. Mr. Varun Goel Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P-02165/2020-2021/13339 Add.: 1750, Eternia Tower, Mahagun Moderene, Sector 78. Noida. Uttar Pradesh -201301 3. Mr. Deepak Gupta Rean No: IBBI/IPA-001/IP-P01340/2018-2019/12235 Add.: 59, Dayanand Block, Shakarpur,

New Delhi-110092 14 (a) Relevant Forms and (a) Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives https://ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips (b) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) are available at: 7th Floor, Mayur Bhawan, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi -110001 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the real estate project "Avalon Regal Court" of M/s. GRJ Distributors & Developers Private Limited on 03.06.2022 (Order received by IRP on 06.06.2022).

The creditors of real estate project "Avalon Regal Court" of M/s. GRJ Distributors & Developers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20.06.2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [Allotee under real estate project] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Gaurav Katiyar

Date: 07.06.2022 Interim Resolution Professional, M/s. GRJ Distributors & Developers Private Limited Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409 Place: New Delhi

DEMAND NOTICE

UNDER SECTION 13(2)

TATA

AUTHORISED OFFICER

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: Tata Capital Housing Finance Limited, B-36, 1st & 2nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above HDFC Bank, New Delhi 110024. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co-Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 28th June 2022 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E-Auction at 2 P.M. on the said 28th June 2022. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E-Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 27th June 2022 till 5 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1st & 2nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above HDFC Bank, New Delhi 110024.

The sale of the Secured Asset/ Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below:

Sr. No	Loan A/c.	Name of Borrower(s) / Co- borrower(s)Legal Heir(s) / Legal	Amount as per Demand Notice and	Reserve Price Earnest	Type of	
		Representative/ Guarantor(s)	date of demand notice	Money	possession	
1.	9556	Mr. Vinay Mishra (Borrower) Mrs. Mishtu	Rs. 60,73,522/-	Rs. 2255000/-	Physical	
	026	Swapankumar Das (Co-Borrower)	06-Nov-2018	Rs. 225500/-	riiysicai	

2. 9540481 Mr. Sanjay Sethi Rs. 1,15,69,192/- Towards loan account No. Rs. 12700000/and (Borrower) Mrs. 9540481 And Rs. 42.64.508/- towards loan Re 1270000/-

	9959310	Madhu Sethi (Co- Borrower)	account No. 9959310 27.05.0219	153. 12700001	
No	56 Situate	d at Village Mauza Atas	erty: All piece and parcel of Plot land Having Kha Bangar Vrindavan District Mathura-U.P281121, s written in the Sale Deed.Bounded In the manner	Land Area adme	easuring

Land, South: land of Shyam Lal, East: Chak road, West: Land of kisso. NOTE: a case RCS/1717/2019 filed by third party against borrowers and TCHFL is pending before Civil Judge Senior Division, Lucknow. No stay order is passed in the case. 3. 9703312 MR. RAJEEV KUMAR (Borrower) Rs. 9418612/-Rs. 6300000/-

Physical

_	4			29-Dec-2018	Rs. 630000/-	0.50
	scription of ryana-12200	f Immovable Property: A	All that Unit No. 120	14, Tower L, Godrej S	Summit, Sector-104	, Gurgaon,
4.	9985726	Mr. MUKET LAL GARG	Rs. 6255438/- tow	ards 9985726 as on	19 Rs. 3150000/-	
				er 2018 and Rs. 1881046 towards 5444 as on 31 October 2019		Physical

Description of Immovable Property: All that Part & Parcel of Khewat No. 182, Khatoni No. 251, Mu. No.37, Kila No. 2(4-3) ka 4/83 Bhag (part), Bakdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring Area) 126.5 Sq. Yds. Waka Mauja Ajrouda, Tehsil & Distt. Faridabad, Haryana.

5. 9423234 Rs. 890000/-Mr. VIKRAM SINGH (Borrower) Rs. 1094466/-Physical Rs. 89000/-12/09/2019 Description of Immovable Property: All That Residential Apartment/Flat Unit bearing LIG Flat No. 14 Situated at

3rd Floor, Sector 34. Block E-2. Pocket-3, under RO Flat Category, Scheme DDA-14, Rohini, Delhi-110085. With

At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the

following further conditions: The E-auction will take place through portal https://bankauctions.in/ on 28th June 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each.

Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction subject to the discretion of Secured Creditor. 2. The property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- (Ten Thousand Only) 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." payable Branch Address. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. I shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 24th June 2022 between 11 AM to 5.00 PM with prior appointment. 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: as mentioned in property details above. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: as mentioned in property details above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad 500038 through its coordinators Mr. U.Subbarao, Mob. No.8142000061, subbarao@bankauctions.in or Arijit Bhatt, Email id Arijit.bhatt@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 9029073280. Please send your query on WhatsApp Number - 9029073280. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/ borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3xdTPhk for the above details Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for

sale/auction of this property. Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter.

Place: Delhi Sd/- Authorised Officer Date: 08/06/2022 Tata Capital Housing Finance Ltd.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, 7th Floor Halwasiya Commerce House, Habibullah Estate, 11, MG Marg, Hazrat Ganj, Lucknow UP 226001. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 28th June 2022 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E-Auction at 2 P.M. on the said 28th June 2022. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E-Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 27th June 2022 till 5 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, 7th Floor Halwasiya Commerce House, Habibullah Estate, 11, MG Marg, Hazrat Ganj, Lucknow UP 226001

The sale of the Secured Asset/ Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below: Sr. Loan Name of Reserve Price Type of Amount as per

No	A/c. No	Borrower(s) / Co- borrower(s)Legal Heir(s) / Legal Representative/ Guarantor(s)	Demand Notice	Earnest Money	possession
1.	9807 572 & 1049 3617	Chabra, M/s Kino Organics (india) Ltd., M/s Shree Bio- Chemical Industries Pvt. Ltd.	Rs. 5657090/- (Rupees Fifty Six Lakh Fifty Seven Thousand Ninety only) is due and payable under Agreement no. 9807572 and an amount of Rs. 7767948/- (Rupees Seventy Seven Lakh Sixty Seven Thousand Nine Hundred Forty Eight Only) is due and payable under Agreement no. 10493617, totalling to Rs. 13425038/- (Rupees One Crore Thirty Four Lakh Twenty Five Thousand Thirty Eight Only)	Rs. 10600000/- Rs. 1060000/-	Symbolic
		(Co-Borrower)	29/August/ 2019		

neasuring 27.56 Sq. Mitr. thus having total Super area of 168.53 Sq. Mitrs. in the "SEARS TOWER" Omaxe Heights, at Plot Nos. TC/G-5/5 and TC/G-2/2 situated at Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh. Bounded By: - North: Lift & Lobby Area; East: Open to Sky; West: Open to Sky; South: Entrance/ Passage to entrance.

2.	794 &	Mr. Chetan Arora (Borrower),	Twenty Seven Lakh Sixty Four Thousand Seven	Physical
		Mrs. Sumiti Arora, Mr. Sanjeev Talwar, Fairdeal Constructions (Co-Borrower),	Hundred Seventy One only) is due and payable under Agreement no. 9718794 and an amount of Rs.2420034/- (Rupees Twenty Four Lakh Twenty Thousand Thirty Four only) is due and payable under Agreement no. 10008452, totalling to Rs. 25184805/- (Rupees Two Crore Fifty One Lakh Eighty Four Thousand Eight Hundred Five Only).	

Description of the Immovable Property: All That Residential Property Bering House No. 170/12 Ka, Situated at Rani Laxmi Bai Marg (Old Neil Road), Kaiserbagh, Lucknow, Measuring about 271.45 Sq. Mtr land with an old Khandhar Measuring 30.08 Sq mtr. Standing Thereon, with common amenities written in the sale Deed. Bounded By: North: Rani Laxmi Bai Marg; East: House of Sh. Pandey; West: House No. 170/12; South: House of Smt.

At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby given last chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:

The E-auction will take place through portal https://bankauctions.in/ on 28th June 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each. Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of

the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement o omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction subject to the discretion of Secured Creditor. 2. The property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- (Ten Thousand Only) 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." payable Branch Address. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 24th June 2022 between 11 AM to 5.00 PM with prior appointment. 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: as mentioned in property details above. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: as mentioned in property details above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad -500038 through its coordinators Mr. U.Subbarao, Mob. No. 8142000061, subbarao@bankauctions.in or Arijit Bhatt, Email id Arijit.bhatt@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 9029073280. Please send your query on WhatsApp Number - 9029073280. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/ borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3Q8OH78 for the above details.

Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property. Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter. Place: Lucknow

Sd/- Authorised Officer Date: 08/06/2022 Tata Capital Housing Finance Ltd.

POONAWALLA

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD.) REGISTERED OFFICE : 602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1.

GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE - 411036 ACT, 2002 by mortgaging your Immovable property/ies from Magma Housing Finance Ltd. "MHFL" now renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd. "PHFL". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence

the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you. Details of the Borrowers, Co-borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed there under are given as under:

SL. No.	Name of the Borrower, Co-Borrower, Guarantor and Loan Amount	Details of the Secured Asset	Demand Notice Date	Amount Due in Rs.
01	AMOLAK SINGH, MANPREET KAUR Loan Amount: Rs. 12,00,000/- Loan No: HL0039/GLGL00000905	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGED PROPERTY OF HOUSE MEASURING 200 SQ. YARDS, COMPRISED IN KHASRA NUMBER 22//24, SITUATED IN VILLAGE SHERPUR KALAN, TEHSIL & DISTT. LUDHIANA		Rs. 12,37,145.46 (Rupees Twelve Lacs Thirty Seven Thousand One Hundred Forty Five and Forty Six Paisas Only) together with further interest @ 12.72% p.a till repayment
02	SURJIT RAM, PARMJIT KAUR Loan Amount: Rs. 10,00,000/- Loan No: HM/0140/H/18/100106	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGED PROPERTY OF LAND MEASURING 1 KANAL 7.1/2 MARLA, WHICH IS 55/8234 SHARE OF LAND MEASURING 205 KANAL 17 MARLA, COMPRISED IN KHEWAT KHATAUNI NO. 112/109/449 TO 461, KHASRA NO. 27//15/1MIN/1-7, 28//11/1/2-13, 27//15/1 MIN/4-13, 13//3/2/6-4, 4/7-11, 27//4/8-0, 7/8-0, 14/8-0, 22//14/5-1, 22/8-0, 27//2/8-0, 22//18/8-0, 23/8-0, 27/13/8-0, 22//21/2/4-0, 26//6/7-2, 27//1/8-0, 9/8-0, 10/8-0, 22//17/8-0, 24/8-0, 27/13/8-0, 43//14/7-19, 17/8-0, 43//15/7-7, 16/8-0, 42//11/8-0, 27//8/8-0, 12/8-0, AS PER JAMABANDI FOR THE YEAR 2013-14, SITUATED WITHIN THE REVENUE LIMITS OF KHANEWAL, TEHSIL PATRAN, DISTRICT PATIALA AND HAVING BOUNDARIES AS UNDER: EAST: 76' 6" STREET; WEST: 44' 3" DILER SINGH S/O SADHU SINGH AND 32' 3" SURJIT RAM S/O RAM; NORTH: 61' 6" PAPPU RAM S/O RAMJI AND 63' 4" SURJIT RAM S/O MARA RAM; SOUTH: 124' 10" MEWA RAM S/O LALU RAM.	25.03.2022	Rs. 10,57,127.43 (Rupees Ten Lacs Fifty Seven Thousand One Hundred Twenty Seven and Forty Three Paisas Only) together with further interest @ 16.00% p.a till repayment.

You the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security/ies. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meanwhile, restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent **Authorised Officer**

Place: Punjab Dated : 08.06.2022

For Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly Known as Magma Housing Finance Ltd.)



URJA GLOBAL LIMITED

Regd. Office: 487/63, I" Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi-110087 CIN: L67120DL1992PLC048983

Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Year Ended on March 31, 2022

S.	PARTICULARS	0	Quarter ended			Financial Year ended		
lo	PARTICULARS	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited		
	Total income from operations (net)	3,056.70	961.40	4,377.19	6,376.07	13,128.06		
	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	14.14	11.96	53.57	88.33	214.63		
	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	14.14	11.96	53.57	88.33	214.63		
	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	14.14	11.96	53.57	66.20	171.35		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	14.14	11.96	53.57	66,20	171.35		
1	Equity Share Capital	5,572.06	5,197.06	5,197.06	5,572.06	5,197.06		
	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	548	-	-	8,850.27	8,236.71		
	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (1) Baisc (2) Diluted	0.003 0.003	0.002 0.002	0.010 0.010	0.012 0.012	0.033		

S.	PARTICULARS	0	Quarter ended	1	Financial Y	'ear ended
No	PARTICULARS	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited
1	Total income from operations (net)	4,126.77	2,542.26	5,532.53	7,453.48	15,181.95
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	21.74	31.42	98.56	76.83	173.62
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	21.74	31.42	98.56	76.97	173.77
6	Equity Share Capital	5,572.06	5,197.06	5,197.06	5,572.06	5,197.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)			-8	12,640.28	12,016.32
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)			000000000000000000000000000000000000000		TANKS OF
	(1) Baisc	0.0039	0.0060	0.0190	0.0138	0.0334
	(2) Diluted	0.0039	0.0060	0.0190	0.0138	0.0334

Place: New Delhi

Date: 6th June, 2022

held on 30th May, 2022

2 The Company operates in one segment only, the clause relating to segment wise reporting is not applicable to the Company

3 The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

sensitivity analysis on the assumptions used and based on current indicators of future economic conditions. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of

4 The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19. The Company has performed

6 Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification /

approval of these financial results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company. 5 EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian

Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

New Delhi

For Urja Global Limited

Mohan Jagdish Agarwal

Managing Director DIN:07627568

financialexp.epapr.in

Gurgaon Haryana 122002

Description Of Property: Sub lease deed- unit no. 306, 3rd

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be Date: 06-June-2022, Place: Noida. Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

TATA

20-Dec-2021

June-2022

Amount in Demand

Notice (Rs.): Rs.

Lakh Eighty Nine

Thousand Nine Hundred

Ninety Eight Only)

24-Feb-2022

06-June-2022

Amount in Demand

Notice (Rs.): Rs.

15,05,099/- (Rupees

Fifteen Lakh Five

Thousand Ninety Nine

Only)

.89,998/- (Rupees Thirty



स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 06.06.2022

भारत होटल्स लिमिटेड सीआईएनः U74899DL1981PLC011274 पंजीकृत कार्यालयः बाराखंभा लेन, नई दिल्ली-110 001 दुरभाषः 91-11-44447777 / 4444 7886,

ई-मेलः corporate@thelalit.com, वेबसाइटः www.thelalit.com अंशधारकों हेतू सूचना-पोस्टल बैलेट एवं ई-मतदान के संबंध में

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 22 वे साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं 110 तथा अधिनियम के अन्य लागयोग्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार डाकीय मतपत्र सूचना दिनांकित 30 मई 2022 में निर्धारितानुसार विशेष संकल्प डाकीय मतपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मतदन के माध्यम से पारित किया जाना प्रस्तावित है। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, डाकीय मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल ईमेल के माध्यम से उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जाएंगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) तथा डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) के साथ पंजीकृत हैं। कृपया नोट करें कि सदस्यों को सूचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र(त्रों) के द्वारा प्रदान की गई है। सूचना जो है वह कंपनी की वेबसाइट www.thelalit.com पर इसके निवेशक संपर्क अनुभाग में तथा आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल पतों को पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे निम्न लिंक पर क्लिक करके अस्थायी रूप में अपने ईमेल पते प्रस्तुत करें:

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx सदस्यों द्वारा मतदान करने की सूविधा केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटड (''केफिन टेक्नोलोजीज'') द्वारा प्रदान कराई जाएगी तथा इसकी विस्तृत प्रक्रिया डाकीय मतपत्र सूचना में प्रदान की जाएगी ई-मतदान का प्रारंभ शुक्रवार 10 जून 2022 को प्रातः 09.00 बजे भामास पर होगा तथा समापन शनिवार 9 जुलाई 2022 को सायं 5.00 बजे भामास पर होगा। इस समयावधि में कंपनी के अंशधारक जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 3 जून 2022 के अनुसार चाहे भौतिक प्रारूपण में अथवा अभौतिक प्रारूपण में अंशों का धारण किए हुए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुचना में निर्धारित समस्त टिप्पणियों तथा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की प्रविधि को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। श्री रवि शर्मा, पेशेवर कंपनी सचिव को मतदान प्रक्रिया की एक समुचित एवं पारदशी प्रविधि के

अंतर्गत जांच–पड़ताल करने के लिए एक जांचकर्ता तथा सुश्री सुमन पांडे, पेशेवर कंपनी सचिव को

एक वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। डाकीय मतपत्र का परिणाम अध्यक्ष द्वारा अथवा कंपनी के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दो कार्यदिवसों की समयावधि में कंपनी की वेबसाइट पर तथा ''केफिन टेक्नोलोजीज'' की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

ई—मतदान की सुविधा से संबंधित किसी शिकायत को ''केफिन टेक्नोलोजीज'' को einward.ris@kfintech.com पर अथवा कंपनी को bhlshare@thelalit.com पर भेजा जा सकता

> निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से भारत होटल्स लिमिटेड (हिमांशु पांडे) कंपनी सचिव एवं विधिक प्रधान स. सं. एसीएस-13531

प्रपत्र—'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	क विवरण मॉडर्न सिटेक्स (इंडिया) लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12 नवंबर 1976
3.		रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-जयपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L24302RJ1976PLC001780
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: ए—4, विजय पथ, तिलक नगर जयपुर — 302004 (राजस्थान) साइट का पता: पेट्रोफिल्स डिवीजन, वमनगाम, तालुका: कर्जन, जिला बड़ीदा (गुजरात)
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	28 मार्च, 2022
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	08 जून 2022
8.	सहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्मता	ई—मेल आईडी: cirp.msil@gmail.com पर विशिष्ट अनुरोध करके ई—मेल के माध्यम से संभावित समाधान आवेदक द्वारा विवरण मांगा जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानवंडः	ई- मेल आईडी: cirp.msil@gmail.com पर विशिष अनुरोध करके ई- मेल के माध्यम से संभावित समाधा- आवेदक द्वारा विवरण मांगा जा सकता है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	28 जून 2022
B	संभावित समाधान आवेदकों की अनतिम सूची जारी करने की तिथि	03 जुलाई 2022
12.	अतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अतिम तिथि	08 जुलाई 2022
13.	संभावित समाधान आयेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	17 जुलाई 2022
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मेट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	08 जुलाई 2022
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	कंवल ऐसे समाधान आवेदक जो पात्रता मानदंशों को पूर करते हैं (ऊपर दिए गए क. संख्या 8 के अनुसार) और गैर-प्रकटीकरण समझीते पर हस्ताक्षर किए हैं, उन् इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मे के माध्यम से समाधान योजना मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना झापन और आगे की जानकार्ष के लिए अनुरोध करने के लिए पहुंच प्रदान की जाएगी। ई-मेल आईडी cirp.msil@gmail.com पर विशिष्ट अनुरोध बदाकर ई-मेल के माध्यम से संभावित समाधान आवेदक द्वारा विवरण मांगा जा सकता है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	12 अगस्त 2022
9600	समाधान प्रोफंशनल को समाधान योजना सींपने की विधि	समाधान योजना पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और सील किए जाएंगे और एक सीलबंद कवर में या तो व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट / कृरियर द्वारा क्र.संख्या 21 में उहिलखित पते पर प्रस्तुत किया जाना है। उसी की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ईमेल आईडी cirp.msil@gmail.com पर भेजी जानी है
	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	08 सितंबर 2022
333	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	पार्थ सारथी सरकार पंजी.सं.: IBBNPA-002/IP-N00239/2017-2018/10690
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ईं-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पार्थ सारथी सरकार कार्यालय संख्या 1, जलाराम कृपा, बिल्डिंग संख्या 61 जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — 400001 ई.मेल: sarkarpartho@yahoo.com
	पता और ई—मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	कार्यालय संख्या १, जलाराम कृपा, बिल्डिंग संख्या ६१, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — 400001 ई.मेल: cirp.msil@gmail.com
3.5	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	ई—मेल आईडी: cirp.msil@gmail.com पर विशिष्ट अनुरोध करके ई—मेल के माध्यम से संमावित समाधान आवेदक द्वारा विवरण मांगा जा सकता है
23	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	08 जून 2022

तिथि: 07 जून 2022 समाधान प्रोफेशनल, मॉडर्न सिटेक्स (इंडिया) लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत

पंजीकरण सं:: IBBI/IPA-002/IP-N00239/2017-2018/10690

ऊजा ग्लोबल लिमिटेड CIN: L67120DL1992PLC048983

487/63, 1ला तल, नेशनल मार्केट, पटपड्गंज, नई दिल्ली-110087

31.3.2022

(अंकेक्षित)

31.12.2021

(अनंकेक्षित)

961.40

11.96

11.96

31.3.2021

(अंकेक्षित)

4377.19

53.57

53.57

53.57

ामण्या एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ग्रंजीकृत कार्यालय राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड: 380009, शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, 19, पंचकुंड्रया नगर, भारत नगर, पडांडगंज, नई दिल्ली-110001

सूचना

इंडियन बैंक

🛕 हामाहाबाद

Indian Bank

उधारकर्ताओं और गारंटरों के नाम

SASAWALIA

जबकि, एचडीबी फाइनेंचियल सर्विसेज लिमिटेंड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों व प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 64) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शवितयों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ता / ओं को मांग सुचना निर्गत की थी, जिसमें यानी सुचना में उधारकर्ताओं को, उक्त सुचना में अंकित राषि का, भूगतान की वास्तविक तिथि तक आक. लित होनेवाली समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के साथ, उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमृगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता / सह-उधारकर्तागण राथि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमायली 2002 की उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) धारा (14) के अंतर्गत जनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 03.06.2022 को आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा वह संबंधित तिथि से गणनाकृत भावी व्याज, लागतों एवं प्रभारों के साथ यहां इसमें विनिर्दिष्ट राषि हेत् एकडीबी फाइनेषियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। आधिपत्य में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

म । ।) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/वारंटर का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) प्रतिभृतियो कें विवरण: ६) मांग सूचना की तिथि: ६) अध्यर्थित राशि आईएनआर में: ७) आधिपत्य की तिथि

धारकर्ता एवं राज-उधारकर्ताओं के नाम: एस जे मोटर्स-3436/4 जीएफ निकोलसन रोउ कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, यहां पर भी: संपत्ति संख्या 3436/4 जीएफ निकोलसन हसन हसन भवन निक. लिसन निकोलसन दिल्ली-110006, प्रीति अरोडा-305, इकीकत नगर, जीटीबी नगर, दिल्ली-110009, मनोज अरोड़ा (मृतक, विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से)-प्रीति अरोड़ा (विधिक उत्तराधिकारी) सिय अरोड़ा (विधिक उत्तराधिकारी), तुष्टि अरोड़ा (विधिक उत्तराधिकारी)–रेवेंट अरोड़ा (विधिक उलाराधिकारी)-रेयांश अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी), शांति देवी अरोडा (मृतक, विधिक उत्तराधिकारी कं माध्यम से)–प्रीति अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी), सिया अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी)–तुष्टि अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी), रेवंत अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी)-रेवांश अरोडा (विधिक उत्तराधिकारी), सभी नेवासीगण: मकान संख्या 306, हकीकत नगर, निकट जीटीबी नगर, दिल्ली-110009; ऋण खाता सं 3966846; ऋण राशि: रु. 78,00,000/- (रुपए अटवहातर लाख मात्र); मांग सूचन तिथिः 09.08.2021: अभ्यर्थित राशिः रु. 45.89.219.72 /— (रुपए पैतालिस लाख नवासी इजार दो सं

उन्नीस एवं बहत्तर पैसे मात्र) 07 अगस्त 2021 के अनुसार तथा भावी संविदात्मक व्याज वास्तविक यसूली होने तक आकस्मिक व्ययों, लागत एवं शुल्कों इत्यादि के साथ; प्रतिभृति के विवरण: संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश. जो दकान संख्या 4 के रूप में भृतल नगर निगम संख्या 111/3435. भृतल हसन भवन, निकोलरान मार्ग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित है, संपत्ति क्षेत्रफल 576.99 वर्ग फट, संपत्ति का परिसीमन: उत्तर- मुख्य मार्ग एवं वक्षिण, विश्वण- गली एवं ३४३० का भाग, पर्व-संपत्ति संख्या ३४३०-३१, पश्चिम- संपत्ति संख्या ३४३६, आधिपत्य की तिथि: 03.06.2022

का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 र 3प-धारा (b) के प्रावधानों की और आमंत्रित किया जाता है। केसी पूछताछ या प्रश्न हेतु कृपया श्री अरुण यादव को दूरभाषः 9350538386 पर

9711010384 पर, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 19, पंचकुंइया नगर, भारत नगर, पहाड़गंज, न देल्ली–110001 से संपर्क करें।

> हस्ता./-कृते एकडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

शुद्धिपत्र प्रपत्र ए

देनाक 06/06/2022

ı	मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूट	र्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के
Į.		नोन रीगल कोर्ट" के लेनदारों के ध्यानार्थ त विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23 नवंबर 1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज—(दिल्ली) कंपनी अधिनियम 1956 / 2013 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51396DL1998PTC097177
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः ६४, सिंधिया हाउस, कनोंट प्लेस, नई दिल्ली—110001
6.	कार्परिट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	03,06,2022, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तिथि (06,06,2022 को आईआरपी द्वारा प्राप्त आदेश
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	30 नवंबर 2022
8,	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	गौरव कटियार पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली — 110065 ई मेल : cagauravkatiyar@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली — 110065 ईमेल : grj.cirp@gmail.com वेबसाइट : www.gauravkatiyar.in
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	20 जून, 2022
12.		अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटी "एवलोन रीगल कोर्ट"
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. श्री श्याम अरोड़ा पंजी. सं.: IBBUPA-002/IP-N00546/2017-2018/11703 पता: 96, अरावली अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली—19 2. श्री वरूण गोयल पंजी. सं.: IBBUPA-001/IP-P-02165/2020-2021/13335 पता: 1750, इटर्निया टॉवर, महागुन मोडेरेन, सैक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश —201301 3. श्री दीपक गुप्ता पंजी. सं.: IBBUPA-001/IP-P01340/2018-2019/12235 पता: 59, दयानद ब्लॉक, शकरपुर, नई दिल्ली—11009/
14.	(क) संबंधित प्रयत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिक: https://lbbi.gov.in/home/downloads https://lbbi.gov.in/ips-register/registered-ips (ख) भारतीय दिवालाऔर शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनींट सर्कस नई दिल्ली—110001

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 03 जून 2022 (आईआरपी द्वार 06.06.2022 को प्राप्त आदेश) को मैसर्स जीआरजे जिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अवल संपत्ति **परियोजना "एवलोन रीगल को टं"** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। मैसर्स जीआरजे ढिस्ट्रीब्यूटर्स एंढ ढेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अवल संपत्ति परियोजना "एवलोन रीगल कोर्ट" के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण 20 जून 2022 को अथवा उससे पहले अंतरिम समाधा प्रोफेशनल को क्रम संख्या 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है । वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार

प्रपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । केसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं.12 के समक्ष सुचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि वे रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद क अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपन्न सीए में (अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटी) निदर्शित करेगा ।

(रु. लाखों में

31.3.2021

(अंकेक्षित)

13128.06

214.63

214.63

171.35

171.35

DIN: 07627568

31.3.2022

(अंकेक्षित)

6376.07

88.33

88.33

66.20

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। गौरव कटियार अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, मैसर्स जीआरजे बिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक: 07,06.2022 | स्थान: नई दिल्ली पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409 आंचलिक कार्यालय, नोएडा: डी—211 / 2, सेक्टर—61, नोएडा—20130,. फोन: 0120—2583586, फैक्स: 0120—2583592, शाखा: सेक्टर—18, नोएडा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना

गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना, इंडियन बैंक की संबंधित शाखा में निम्नलिखित ऋण खातों के संबंध में निम्नलिखित ऋणी / गारंटर / बंधक को पंजीकृत डाकध्स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा निम्नलिखित तिथियों पर भेजा गया। निम्नानुसार चुकौती की तारीख तक सहमत दर पर आगे ब्याज/लागत के साथ नीचे उल्लिखित राशि के ऋणों की चुकौती में चूक हुई। बैंक ने अधिनियम के तहत निम्नलिखित तारीख को नोटिस जारी कर आपसे नीचे उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है। आपको

*रजि. डाक/*कूरियर/*स्पीड पोस्ट से भेजा गया नोटिस बिना सुपुर्द हुए लौटा दिया गया है। आपको इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भगतान की तारीख से ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित देय राशि का भगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसके विफल होने पर बैंक नीचे अनुसूची में दी गई प्रतिभूति संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। यह नोटिस बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य सही उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया है।

सं.			बकाया राषि
1.	देल्ली—110092 प्लॉट नंबर 87,ब्लॉक ए, सेक्टर —100, नोएडा जिला—गौतमबुद्धनगर (यूपी) —201301 2—सह—उधारकर्ताः श्रीमती कृति अग्रवाल पत्नी श्री प्रवीण अग्रवाल, मकान नंबर 48 गुजरात विहार, नई दिल्ली—110092 प्लॉट नंबर 87,ब्लॉक ए, सेक्टर—100, नोएडा जिला—गौतमबुद्धनगर (यूपी) —201301 3—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपी),मुख्य प्रशास. निक भवन, सेक्टर—6 नोएडा, गौतमबुद्ध, नगर (यूपी) —201301 4— कार्यालय अधीक्षक / प्रबंधक / डेस्क अधिकारी नवीन ओखला ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपी), मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर—6 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (यूपी)—201301 इाडयन बक, सक्टर—18, नाएडा शाखा क साथ खाता संख्या —612/678978	ब्लॉक ए, सेक्टर—100, नोएडा,जिला—गीतमबुद्ध नगर स्थित आवासीय प्लॉट नं. 087पर निर्मित मकान के सभी भाग और अंश तथा इसका माप क्षेत्र 250.00 वर्ग मीटर है। चौहदी निम्नानुसार : उत्तरः प्लॉट ए—80, दक्षिणः 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्वः प्लॉट ए—86, पश्चिमः प्लॉट ए—88	23.05.2022 रु.23.05.2022 के अनुसार रु. 42,79,339 / —(बयालीस लाख उन्न्यासी हजार तीन सौ उन्तालीस रुपये मात्र) एनपीए की तिथिः 29.10.2018
दिना	कः 08.06.2022, स्थान : नोएडा		प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 to 232 of Companies Act, 2013] Company Application No. CA(CAA) No. 44/CHD/PB/2021

IN THE MATTER OF:

TRIPUTI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (Transferor Company) AND MILKFOOD LIMITED (Transferee Company)

Their respective Shareholders and Creditors

Advertisement of notice of the meetings of Milkfood Limited

Notice is hereby given that by an order dated 13.05.2022, the Hon'ble Tribunal has directed a meetings to be held of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation between the Transferor Company and Transferee Company and their respective Shareholders and Creditors.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held virtually through video conferencing mode and the facility of attending and voting through video conferencing from Central Depository Services (India) Limited (CDSL) Platform so as to enable the stakeholders, to consider and approve the Scheme by way of aforesaid resolution. Accordingly, voting by Secured Creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Transferee Company to the Scheme shall be carried out through video conferencing to be held on Saturday, July 9, 2022, at 10.30 AM, 11:30 AM and 02.30 PM respectively.

Copies of the Scheme of Amalgamation and of the Explanatory Statement, under Sections 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Transferee Company or may obtain from official representative, Mr. Rakesh Thakur, Company Secretary, Tel No. +91-011-26460670 of Transferee Company or by emailing at info@milkfoodltd.com of Transferee Company. The Company is also providing postal ballot e-voting facility to enable the shareholders of Transferee Company to vote on the resolution proposed in the aforesaid notice of the Tribunal Convened meeting of the equity shareholders. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing evoting facility to all its shareholders. The e-voting facility can be availed by logging on www.evotingindia.com for e-voting. Voting through postal ballot e-voting in connection with the resolution proposed in the Notice, will commence on and from 9.00 a.m. on Wednesday, July 06, 2022 at 09.00 am. and will end at 5.00 p.m. on Friday, July 08, 2022.

The authorized representative of a body corporate which is an stakeholder of the Transferee Company, may attend and vote at the meeting provided a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of the body corporate or a power of attorney or an authorization letter authorizing such representative to attend and vote at the respective meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company as the case may be, is duly e-mailed at info@milkfoodltd.com or physically deposited or sent by courier at the registered office of the Transferee Company not later than 48 (forty eight) hours before the scheduled time of the commencement of the each respective meetings of the Stakeholders of the Transferee Company, i.e. by July 7, 2022 on or before 10.30 AM for Secured Creditors, 11.30 AM for Unsecured Creditors and 02.30 PM IST for Equity Shareholders. A person/entity who/which is not an unsecured creditor on such date should treat the notice for information purposes only and shall not be entitled to avail the facility of voting at the meeting.

The Company is providing a facility for voting by way of E-voting to the Stakeholders attending the meetings through video conferencing who can vote by E-voting through an e-mail info@milkfoodltd.com either in pdf/jpg/scanned image format or all such ballot polling papers may be sent to Registered office of the Transferee Company at 5th Floor, 91, Bhandari House, Nehru Place, New Delhi -110019 after calling out of the resolution in the meeting scheduled for this purpose.

The Hon'ble Tribunal has appointed the undersigned as the Chairman, Mr. Manuj Nagrath, Advocate as Alternate Chairman and Mr. P.D. Sharma, Practicing Company Secretary as Scrutinizer of the said meetings. The Scheme of Amalgamation, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

Dated this 7th day of June 2022

Justice Ranjit Singh [Retd.] (Chairman appointed for the meetings)

पंजाब नैशनल बैंग एगाविष्ठ national bankभरोसे का प्रतीका	कब्जा सूचना (अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))
जबकि, पंजाब नैशनत बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईनेशन एण्ड रिकन्सट्रकान ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड इनफोसंमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के निपम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्भ नेटिस में निहित रक्ष्म की अवायगी हेतु एक डिमांड नीटिस जारी किया था। क्यों के हारा रक्ष्म की अवायगी ने करने के कारण निम्नतिखित क्षणकर्ता एवं जन साधारण को नीटिस वी जाती है कि अमेहित कार्य के साथ की स्वाय प्राप्त के स्वाय की स्वाय प्राप्त के स्वय की स्वयं के स्वयं के साथ की साथ की नीटिस वी जाती है कि अमेहित कार्य की साथ की सा	कित तिबि को उक्त नियमों के नियम 8 के साब परित उक्त अधिनियम की बारा 13

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/ (बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	(ए) शाखाः आबूलेन मेरठ कॅंट, मेरठ, (बी) मैसर्स मेट्रो इंटरप्राइजेन (सी) मैसर्स मेट्रो इंटरप्राइजेज, ए-2, जामिया रेजीडेंसी, फतेहुल्लापुर रोड, हापुड़ बाईपास रोड, मेरठ, उ०प्र0- 250002, बी इरफान सैफी (ऋणी∕बंधककर्ता), पुत्र बी शमशुद्दीन, ए-2, जामिया रेजीडेंसी, फतेहुल्लापुर रोड, हापुड़ बाईपास रोड, मेरठ, उ०प्र0- 250002	प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक सम्पत्ति आईपी नं0 ए-2, स्थित खसरा नं0 189, जामिया रेजीडेंसी, ग्राम- फतेहुल्लापुर, मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.435 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री इरफान सैफी पुत्र श्री शमशुद्दीन। सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट नं0 ए-1, पश्चिमः प्लॉट नं0 ए-3, उत्तरः प्लॉट नं0 ए-27, दक्षिणः 12 मीटर चीड़ा रास्ता।	(ए) 29.01,2022 (취) 04.06.2022	रू० 40,83,618.36 + ब्याज दिनांक 01.01.2022 + कानूनी एवं अन्य खर्च
2.	(ए) शाखाः आबुलेन मेरठ केंट, मेरठ, (बी) एस०के० मोबाइल एवं कम्युनिकेशन्स (सी) एस०के० मोबाइल एवं कम्युनिकेशन्स (ऋणी), एफ-107, सुयां प्लाजा, हापुड़ रोड, मेरठ- 250002, मैससं अनु इंटरप्राइजेज (ऋणी), 1560/18, न्यू जाकिर हुसैन कॉलोनी, एसटी नं0 18, पी०एस० लिसाड़ी गेट, मेरठ, उ०प्र०- 250002, मौहम्मद इमराम (ऋणी), पुत्र शमशुद्रदीन, 1560/18, न्यू जाकिर हुसैन कॉलोनी, एसटी नं0 18, पी.एस. लिसाड़ी गेट, मेरठ, उ०प्र०- 250002, श्री इरशाद सैफी (गारन्टर/बंग गर्ली नं0 3, मेरठ। पता 2: मकान नं0 ए-14, समर कॉलोनी, इंदगाह, मेरठ।	सम्पत्ति स्वामी श्री इरशाद सैफी पुत्र अब्दुल हामिद। सीमाएँ:- पूर्वः 6 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिमः प्लीट नं0 एम-222, उत्तरः प्लीट नं0 एम-220, दक्षिणः 18 मीटर चौड़ा रास्ता।	(可) 14.03.2022 (朝) 06.06.2022	रु० 24,03,795.50 + व्याज दिनांक 01.03.2022 + कानूनी एवं अन्य खर्
3.	(ए) शाखाः मवाना, मेरठ, (बी) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री इश्वर सिंह। (सी) श्री राजेन्द्र सिंह (ऋणी) पुत्र श्री इश्वर सिंह, पता 1: मकान नं0 1347, मीहल्ला- कावली गेट, मवाना, जिला- मेरठ, उ०प्र०- 250401, पता 2: मकान नं0 1340, मीहल्ला- कावली गेट, मवाना, जिला- मेरठ, उ०प्र०- 250401, श्रीमती मुकेश (ऋणी/वंधककर्ता), पता 1: मकान नं0 1347, मीहल्ला कावली गेट, मवाना, जिला- मेरठ, उ०प्र०- 250401, पता 2: मकान नं0 1340, मीहल्ला- कावली गेट, मवाना, जिला- मेरठ, उ०प्र०- 250401	प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं0 1340, स्थित अशोक वाटिका (अशोक विहार) मीहल्ला- कावली गेट, करवा मवाना कलां, परगना हस्तिनापुर, तहसील- मवाना, जिला- मेरठ, माप क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर/ 200 वर्ग गज (2 विक्रेय विलेख), सम्पत्ति स्वामी श्रीमती मुकेश पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह। सीमाएँ:- पूर्वः 50 फीट/ 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः ज्ञान सिंह का प्लॉट, उत्तरः 45 फीट/ भूले राम शर्मा का मकान, दक्षिणः 30 फीट/ 25 फीट चौड़ा रास्ता।	(可) 21.05.2021 (相) 04.06.2022	रु0 30,29,427.50 + ब्याज दिनांक 01.03.2022 + कानूनी एवं अन्य खर्
4.	(ए) शाखाः गढ रोड, मेरठ (बी) मैसर्स मीहम्मद तंजीम (सी) मैसर्स मीहम्मद तंजीम (ऋणी) पुत्र श्री मैराजुद्दीन, 1478, करीम नगर, हापुड़ रोड, मेरठ- 250002, श्री मैराजुद्दीन (गारन्टर∕बंधककर्ता) पुत्र मीहम्मद वामीन, 1478, करीम नगर, हापुड़ रोड, मेरठ, उ0प्र0- 250002	प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक आवासीय मकान नं0 188/2 के सभी भाग व भूखंड, निर्मित प्लॉट नं0 5, मीहल्ला उमर नगर हापुड़ रोड, मेरठ, माप क्षेत्रफल 136.28 वर्ग मीटर, खसरा नं0 3925 का भाग, सम्पत्ति स्वामी श्री मैराजुव्दीन पुत्र श्री मीहम्मद यामीन। सीमाएँ:- पूर्वः 27 फीट 6 इंच/ सरकारी रास्ता, पश्चिमः 27 फीट 5.1/2 इंच/ अन्य की सम्पत्ति, उत्तरः 54 फीट 10 इंच/ इस्लामुद्दीन की सम्पत्ति, दक्षिणः 53 फीट 11 इंच/रियाजुद्दीन की सम्पत्ति।	(可) 07.02,2022 (朝) 06.06.2022	रु० 21,04,021/- + ब्याज दिनांक 01.01.2022 + कानूनी एवं अन्य ख
5.	(ए) शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरठ, (बी) मैसर्स रॉयल फूड कार्पोरेशन (सी) मैसर्स रॉयल फूड कार्पोरेशन, पताः एस-11/10-ए, आस्था रेजीडेंसी, तक्षशिला कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उ०००- 250002, श्रीमती कौशल राष्ट्रव (ऋणी) पत्नी श्री अजय राष्ट्रव, पताः एस-11/10-ए, आस्था रेजीडेंसी, तक्षशिला कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उ०००- 250002, श्री अजय राष्ट्रव (गारन्टर/बंधककती), पुत्र श्री ओपाल राष्ट्रव, पताः एस-11/10-ए, आस्था रेजीडेंसी, तक्षशिला कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उ०००- 250002	प्राथमिक सम्पत्तिः बंधक आवासीय फ्लैट प्राइवेट नं0 एस-11 के सभी भाग व भूखंड, स्थित द्वितीय तल प्लूट नं0 10 का भाग, आस्था रेजीडेंसी, तक्षशिला कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, माप क्षेत्रफल 122.87 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री अजय राषव पुत्र श्री ओमपाल राषव। सीमाएँ:- पूर्वः आम सीढ़ियाँ एवं आम पार्किंग खुला स्पेश भूतल, पश्चिमः प्लॉट नं0 11 भूतल, उत्तरः विक्रेता का अन्य भाग, दक्षिणः विक्रेता का अन्य भाग।	(哎) 11.01.2022 (湖) 06.06.2022	रु० 32,98,712.2 + व्याज दिनांक 01.01.2022 + कानूनी एवं अन्य ख
6.	(ए) शाखाः बेगम ब्रिज, मेरठ, (बी) श्री सोनू बंसल (सी) श्री सोनू बंसल (ऋणी∕बंधककती) पुत्र श्री श्रवन कुमार बंसल, आई-111, शास्त्री नगर, आई- ब्लॉक, मेरठ-250002, श्री संजय कुमार (ऋणी), पुत्र श्री श्रवण कुमार, आई-111, शास्त्री नगर, आई- ब्लॉक, मेरठ- 250002, श्री प्रवीन कुमार (गारन्टर) पुत्र श्री श्रवण कुमार बंसल, आई-111, शास्त्री नगर, आई-ब्लॉक, मेरठ- 250002	बंसल पुत्र श्री श्रवण कुमार बंसल। सीमाएँ:- पूर्वः श्री कुलदीप का मकान, पश्चिमः	(ए) 08.02.2022 (朝) 06.06.2022	रू० 20,32,087.00 + व्याज दिनांक 01.02.2022 + कानूनी एवं अन्य ख
7.	(ए) शाखाः मेरठ केंट, मेरठ, (बी) श्री साबिर अली पुत्र शब्बीर अहमद। (सी) श्री साबिर अली पुत्र शब्बीर अहमद (ऋणी/वंधककर्ता), मकान नं0 133/1, शकूर नगर लिसाड़ी रोड, मेरठ- 250002, श्री अब्दुल वाजिद पुत्र श्री साबिर अली (वंधककर्ता), मकान नं0 133/1, शकूर नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती फिरोजा परवीन पत्नी अब्दुल वाहिद, मकान नं0 133/1, शकूर नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती जायदा पत्नी श्री साबिर अली, मकान नं0 133/1, शकूर नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती जायदा पत्नी श्री साबिर अली, मकान नं0 133/1, शकूर नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ- 250002, श्री आविद अमन पुत्र शब्बीर अहमद (गारन्टर), मकान नं0		(哎) 15.12.2021 (朝) 06.06.2022	रु० 60,09,888.6 + ब्याज दिनांक 01.12.2021 + कानूनी एवं अन्य ख
8.	(ए) शाखाः मेरठ केंट, आबूलेन, (बी) श्री मोहिनुद्दीन पुत्र श्री सलाउद्दीन (सी) श्री मोहिनुद्दीन पुत्र श्री सलाउद्दीन (ऋणी + बंधककर्ता), पता 1: मकान नं0 352, 25 फूटा रोड, समर गार्डन कॉलोनी, मेरठ, उ०प्र०- 250002, पता 2: मकान नं0 131, मोहल्ला- शकूर नगर, अब मरूफ फिरोज नगर, मेरठ, उ०प्र०- 250002, मोहम्मद लाईक पुत्र बाबू खान (गारन्टर), पताः	प्राथमिक सम्पत्तिः आवासीय भवन मकान नं0 131 का भाग, खसरा नं0 2968, मीहल्ला शकुर नगर, अब मरूफ फिरोज नगर, मेरठ, उ0प्र0। माप क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री मीहिनुद्दीन पुत्र श्री सलाउद्दीन, विक्रेय विलेख के अनुसार सीमाएँ-पूर्वः 10 फीट तत्पश्चात् 12 फीट चौड़ा सस्ता, पश्चिमः 10 फीट तत्पश्चात् वारिसान मरहूम नवाय खान का घेर, उत्तरः 45 फीट तत्पश्चात् जैतून का मकान, दक्षिणः 45 फीट तत्पश्चात् मकान का शेष भाग (सम्पत्ति	(収) 14.02.2022 (朝) 06.06.2022	रू० 20,05,871.0 + ब्याज दिनांक 01.02.2022 से + कानूनी एवं अन्य ख

स्वामी हज्जन शकीला)।

	आय (कर के बाद) से शामिल					
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5572.06	5197.06	5197.06	5572.06	5197.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	- 1	-	8850.27	8236.71
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी प्रचालनों के लिए) 1. मूल	0.003	0.002	0.010	0.012	0.033
	2. तरल	0.003	0.002	0.010	0.012	0.033
	31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के	लिए अंकेक्षि	वित्तीय परिण	ामों विवरणों	का सार	
					(रु. लाखों में
क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वित्त वर्ष	
सं.		31.3.2022 (अंकेक्षित)	31.12.2021 (अनंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2022 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4126.77	2542.26	5532.53	7,453.53	15,181.95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	21.74	31.42	98.56	99.37	217.76
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	21.74	31.42	98.56	76.83	173.62
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	21.74	31.42	98.56	76.97	173.77
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5572.06	5197.06	5197.06	5572.06	5197.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के	- "	- "	-	12640.28	12,016.32

पार्थ सारथी सरकार

 आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी प्रचालनों के लिए) 0.0039 0.0060 0.0190 0.0138 2. तरल 0.0060 0.0334 1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई तथा 30 मई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

2. कम्पनी केवल खंड में प्रचालन करती है, अतः खंड वार विवरणों से संबंधित उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं है। 3. उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 मे निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, यथा-संशोधित के

अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के पहचान एवं मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है, 4. कम्पनी ने कोविड–19 से संभावित महामारी से होने वाली संभावित प्रभावों का विचार किया है। कम्पनी ने भावी आर्थिक स्थितियों के प्रयुक्त परिकल्पनाओं तथा वर्तमान सूचकों के आधार पर संवेदनशील विश्लेषण किया है। महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित परिकल्पनाओं को विकसित करने में कम्पनी ने इन वित्तीय परिणामों की स्वीकृति की तिथि को कम्पनी की अपेक्षित भावी प्रदर्शन पर आंतरिक एवं बाहरी श्रोतों का उपयोग किया है।

5. ईपीएस की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संशोधित तथा विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित रूप में इंड एएस 33 के अनुसार की गई है। 6. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण/ उद्घाटन के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े, पुनर्वर्गीकृत/ पुनसर्मूहीकृत किये गये हैं।

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के लिये मोहन जगदीश अगरवाल स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक

स्थानः मेरठ

मकान नं0 126/1, घंटे वाली गली, फिरोज नगर, मेरठ, उ०प्र०- 250002

दिनाक-07.06.2022

तिथि: 6 जून, 2022

अतिरिक्त आरक्षित)